



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 14—मई 20, 2005 (वैशाख 24, 1927)

No. 20]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 14—MAY 20, 2005 (VAISAKHA 24, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	493	भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	467	भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	3	भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	507
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	679	भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	249
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1491
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	133
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं।	*		

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	493	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	467	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	507
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	679	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	249
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1491
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	133
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

भाग I—खण्ड I

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 मई 2005

सं. 16-प्रेज/2005---राष्ट्रपति ने 2001 में हुए ऑपरेशन पराक्रम के दौरान सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के कार्यों को सम्मानित करने के लिए एक मेडल शुरू किया है और इसके लिए निम्नलिखित अध्यादेश बनाया और जारी किया है:

पहला - इस मेडल की बनावट निम्न प्रकार की होगी और इसे "ऑपरेशन पराक्रम" मेडल (आगे इसे मेडल कहा जाएगा) कहा जाएगा।

दूसरा - यह मेडल गोलाकार होगा तथा तौबे और निकिल की मिश्रित धातु का बना होगा, इसका व्यास 35 मिमी. होगा और अन्य मानक फिटिंग के साथ यह एक सादी आड़ी छड़ पर लगा होगा। इस पर उभरा हुआ भारत का नक्शा होगा और इसके घेरे के साथ-साथ हिन्दी और अंग्रेजी - दोनों में "ऑपरेशन पराक्रम" "OPERATION PARAKRAM" लिखा होगा। इसके दूसरी तरफ एक घेरे में उभरा हुआ राष्ट्रीय चिह्न होगा। मेडल के एक सीलबंद पैटर्न को सुरक्षित जमा करके रख दिया जाएगा।

तीसरा - यह मेडल बाई छती पर, 32 मिमी. चौड़े सिल्क के रिबन से लटका कर पहना जाएगा, इस रिबन में बाएं से दाएं तीन बराबर हिस्सों में नीला, जैतूनी हरा और बलुआ पीला रंग होगा। नीले और जैतूनी हरे भाग 2 मिमी. चौड़ी सफेद पट्टी से अलग किए जाएंगे और जैतूनी हरे तथा बलुआ पीले भाग 2 मिमी. चौड़ी लाल पट्टी से अलग किए जाएंगे।

चौथा - यह मेडल निम्नलिखित सेनाओं के कार्मिकों को दिया जाएगा :--

(क) सभी श्रेणियों के वे कार्मिक जो सेना, नौसेना और वायुसेना की प्रभावी नफरी में थे और जिन्हें "ऑपरेशन पराक्रम" में सहायता देने के लिए विभिन्न मुख्यालयों में इसकी योजना बनाने और उन्हें संचालित करने के लिए लामबंद/नियुक्त/शामिल किया गया था।

(ख) अर्ध-सैनिक बल, केन्द्रीय पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल के सभी अफसर और जवान, सिविल रक्षा कार्मिक, राज्य पुलिस कार्मिक, होम गार्ड, सिविलियन कार्मिक और सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य संगठनों के कार्मिक, जिन्हें सेना के संक्रियात्मक नियंत्रण के अधीन संक्रियात्मक इलाकों में तैनात किया गया था अथवा सरकार द्वारा निर्दिष्ट इलाकों में नियुक्त इन संगठनों के अन्य कार्मिक, जिन्होंने इस ऑपरेशन को कार्यान्वित करने, ताल-मेल बिठाने और इसका संचालन करने में अपना सहयोग दिया।

(ग) तट रक्षक की प्रभावी नफरी में शामिल सभी कार्मिक, जिन्हें इस ऑपरेशन के लिए समुद्र पर तैनात किया गया था अथवा जिन्होंने विभिन्न मुख्यालयों में इस ऑपरेशन की योजना बनाने में सहयोग दिया।

(घ) संक्रिया वाले इलाकों में उपर्युक्त सेनाओं के आदेशों/निर्देशों अथवा पर्यवेक्षण के तहत नियमित अथवा अस्थायी रूप से काम कर रहे सभी सिविलियन महिला और पुरुष।

(च) स्थानीय समुद्री रक्षा, युद्ध निगरानी संगठन, नौसैनिक पोत-परिवहन नियंत्रण और जाँच सेवा के लिए तैनात सिविलियन।

पाँचवां - यह मेडल जिन विशेष क्षेत्रों के लिए दिया जाएगा, उनका ब्यौरा इस प्रकार है :--

(क) सेना - 'ऑपरेशन पराक्रम' में सहयोग देने के लिए लामबंद और तैनात सभी फार्मेशन्, यूनिट्स/रेजिमेंट और उप-यूनिट्स, साथ ही लामबंदी/तैनाती की योजना बनाने और उनका संचालन करने में शामिल सेना मुख्यालय सहित विभिन्न मुख्यालयों में नियुक्त सभी अफसर और जवान।

(ख) नौसेना -

(i) पोत, पनडुब्बी, विमान, तटीय बैटरियों और तटीय रक्षा बलों, युद्ध निगरानी, नौसैनिक पोत-परिवहन नियंत्रण और जाँच सेवा तथा हिन्द महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान समुद्र में तैनात तटीय गार्ड की सभी यूनिटें जो ऑपरेशन पराक्रम के संक्रियात्मक गतिविधियों में शामिल थीं।

(ii) इसमें नौसेना मुख्यालय, कमान मुख्यालय, फ्लैग अफसर महाराष्ट्र क्षेत्र (एफ ओ एम ए) तथा फ्लैग अफसर गोवा क्षेत्र (एफ ओ जी ए) मुख्यालय के सभी कार्मिक और नौसेना प्रभारी अफसर (एन ओ आई सी) का स्टाफ भी शामिल है, जो ऑपरेशन पराक्रम की संक्रियात्मक, परिभारिकी और प्रशासनिक योजना से वास्तव में जुड़े हुए थे।

(ग) वायुसेना - पश्चिम वायु कमान, दक्षिण-पश्चिम वायु कमान और मध्य वायु कमान के सभी विंग/अग्रवर्ती बेस आपूर्ति यूनिट (एफ बी एस यू)/स्टेशन, स्ववाइन और उप यूनिटें जिन्हें ऑपरेशन पराक्रम के लिए लामबंद और तैनात किया गया था तथा पश्चिम वायु कमान/दक्षिण-पश्चिम वायु कमान तथा मध्य वायु कमान की सहायता के लिए तैनात/लामबंद किए गए रख-रखाव कमान के सभी कार्मिक, साथ ही लामबंदी/तैनाती की योजना बनाने और उसके संचालन में शामिल

वायुसेना मुख्यालय सहित विभिन्न मुख्यालयों में तैनात सभी अफसर और जवान।

छठा - पात्रता की शर्तें

(क) वह व्यक्ति जिसने अर्हक क्षेत्र में कुल मिलाकर 180 दिन की सेवा पूरी कर ली हो। एक ही सेवावधि के लिए इस मेडल हेतु अपेक्षित अर्हक अवधि को उस क्षेत्र के लिए शुरू किए गए किसी अन्य मेडल में नहीं गिना जाएगा।

(ख) सेना विमानन कोर, नौसेना वायु स्क्वाड्रन के कार्मिक, वायुसेना के वायुयान कर्मी, हवाई प्रेषण यूनियनों का निकासी कर्मिंदल और वायु रख-रखाब बटालियनों/तटरक्षक वायु स्क्वाड्रनों की प्रभावी नफरी में शामिल कार्मिक जिन्होंने कम से कम पाँच संक्रियात्मक सॉर्टी भरी हों अथवा अर्हक क्षेत्र में/पर बीस घंटे की संक्रियात्मक उड़ान भरी हो।

(ग) समय-सीमा पर विचार किए बिना "ऑप पराक्रम" में वीरता पुरस्कार पाने वाले सभी कार्मिक अथवा सेना सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुआ अथवा युद्ध के मैदान में जख्मी होने पर अथवा अन्य अपंगताओं के कारण युद्धक्षेत्र से हटाया गया कार्मिक, चाहे इसकी समय-सीमा अथवा संक्रियात्मक सॉर्टियों की संख्या अथवा संक्रियात्मक उड़ान घंटे कितने भी हों, यह मेडल पाने के पात्र होंगे।

(घ) भारतीय नौसेना के संक्रियात्मक नियंत्रण के अधीन नौसेना, तटरक्षक, व्यापारिक पोत और यान पर तैनात सभी नौसैनिक/तटरक्षक कार्मिक जिन्होंने अर्हक क्षेत्र में कुल 180 दिन की सेवा या कुल पाँच हथियारबंद गश्ती सॉर्टियों पूरे किए हों।

सातवां - राष्ट्रपति इस बात के लिए सक्षम होंगे कि वे यह मेडल किसी व्यक्ति को प्रदान किया जाना रुद्द अथवा अमान्य कर सकें और बाद में उसे बहाल भी कर सकें।

आठवां - सरकार को इस बात का प्राधिकार होगा कि वह इन अध्यादेशों के निष्पादन के लिए आवश्यक निर्देश तैयार कर सके।

बरुण मित्रा
निदेशक

लोक सभा सचिवालय

(प्राक्कलन समिति शाखा)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 मई 2005

सं. 4/2/ईसी/2005--लोक सभा के निम्नलिखित सदस्यों को 30 अप्रैल, 2006 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में विधिवत् निर्वाचित घोषित किया गया है:--

प्राक्कलन समिति (2005-2006) के सदस्य

1. श्री सरताज सिंह छतवाल
2. श्री लाल मुनी चौबे
3. श्री अधीर चौधरी
4. श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव
5. श्री अनंत गंगाराम गोते
6. श्री अनंत गुढे
7. श्री जय प्रकाश
8. श्री पी. करुणाकरन

9. श्री विजय कृष्ण
10. श्री बी विनोद कुमार
11. प्रो. चन्द्र कुमार
12. श्री सी. कुप्पुसामी
13. श्री समिक लाहिरी
14. श्री भर्तृहरि महताब
15. श्री सनत कुमार मंडल
16. श्री जोरा सिंह मान
17. श्री प्रबोध पाण्डा
18. श्री सुकदेव पासवान
19. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील
20. श्री ए. साई प्रताप
21. प्रो. एम. रामदास
22. श्री के. एस. राव
23. श्री इकबाल अहमद सरडगी
24. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया
25. श्री अर्जुन चरण सेठी
26. श्री मानवेन्द्र साह
27. श्री लक्ष्मण सिंह
28. श्री खारबेल स्वाई
29. श्री अखिलेश यादव
30. श्री चन्द्रपाल सिंह यादव

अध्यक्ष ने श्री सी. कुप्पुसामी, संसद सदस्य को प्राक्कलन समिति (2005-2006) के सभापति के रूप में नियुक्त किया है।

बी. डी. स्वान
उप सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल 2005

संकल्प

सं. ई. 11011/5/2004-हिन्दी-4--वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 21 मई, 1999 के संकल्प सं. ई. 11011/4/96-हिन्दी-4 का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय में राजस्व एवं व्यय विभागों की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति का निम्न प्रकार से पुनर्गठन किया है:--

सरकारी सदस्य

अध्यक्ष

1. वित्त मंत्री

उपाध्यक्ष

2. वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

सदस्य

3. राजस्व सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

4. सचिव (व्यय), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

सदस्य

5. भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार एवं सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
6. अपर सचिव (राजस्व), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
7. अपर सचिव (व्यय), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
8. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
9. अध्यक्ष, के. उ. शुल्क एवं सी. शु. बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय
10. अध्यक्ष, सी. शु., उ. शु. तथा सेवा कर अपील अधिकरण, आर. के. पुरम्, नई दिल्ली
11. अध्यक्ष, समपद्धत सम्पत्ति अपील अधि., लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली
12. अध्यक्ष, आयकर समझौता आयोग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली
13. महानिदेशक, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, इंडियन ऑयल बिल्डिंग, जनपथ, नई दिल्ली
14. निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली
15. वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय
16. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली
17. भारत के उप निर्यत्रक महालेखा परीक्षक (वाणिज्य), बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली

सदस्य-सचिव

18. संयुक्त सचिव (प्रशा.) के. प्र. कर बोर्ड, राजस्व विभाग

गैर-सरकारी सदस्य

19. डा. कर्ण सिंह यादव, सांसद, लोकसभा
20. श्री जी. एम. सिद्धेश्वर, सांसद, लोकसभा
21. श्री मूलचन्द मीणा, सांसद, राज्य सभा
22. श्री जयन्ती लाल बारोट, सांसद, राज्य सभा
23. डा. सत्यनारायण जटिया, सांसद, लोक सभा
24. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, सांसद, लोक सभा
25. डा. पद्माकर पाण्डे, प्रधानमंत्री, नागरी प्रचारिणी सभा, ए.16 अरुणा आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110067
26. श्री कृष्ण कुमार ग्रोवर, प्रतिनिधि, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, एफ. बी. 16, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली-110027
27. डा. के. एम. मालती (सेवानिवृत्त अध्यक्ष, गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कालेज), 8 साई नगर, वर्धा (महाराष्ट्र)
28. डा. बालासौरी रेड्डी, अध्यक्ष, तमिलनाडु हिन्दी अकादमी, 27, वदिवेलुपुरम पश्चिम मामबलम, चेन्नई
29. प्रो. सूरजभान सिंह (पूर्व अध्यक्ष, वैज्ञानिक व तकनीकी शब्दावली आयोग), I-127, नारायणा विहार, नई दिल्ली
30. श्री जगदीश पीयूष, गौरीगंज, सुल्तानपुर, उ. प्र.

31. श्री बी. तुलसीराम, 7-4-12 ग्राम गगनपहाड़, जिला रंगरेड्डी, हैदराबाद (आं. प्र.)

32. श्री टी. एस. के. कन्नन, 8 रत्नानगर, तेगनमपेट, चेन्नई

33. सौ. चित्रलेखा हणमन्तराव माने-कदम, अध्यक्ष पंचकोशी शिक्षण मंडल, रहीमपुर, तालुक कोरेगांव, सतारा (महाराष्ट्र)

2. समिति के कार्य:

समिति सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों में वित्त मंत्रालय (राजस्व एवं व्यय विभागों) को सलाह देगी।

3. समिति का कार्यकाल:

समिति का कार्यकाल उसके गठित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष का होगा। संसद सदस्य जो इस समिति के सदस्य हैं, संसद भंग होने पर या कार्यकाल (राज्य सभा) समाप्त होने पर अथवा अन्यथा एक या अनेक कारणों से सदन के सदस्य न रहने पर समिति के सदस्य नहीं रहेंगे। समिति के कार्यकाल के दौरान रिक्त पदों पर नामित व्यक्ति समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।

4. समिति का मुख्यालय

समिति का मुख्यालय, नई दिल्ली में होगा लेकिन समिति अपनी बैठक किसी अन्य नगर में भी कर सकती है।

5. भत्ते

गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु भारत सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति के लिए स्वीकार्य समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के निर्यत्रक महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व लेखा परीक्षा निदेशक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

प्रदीप सेन

संयुक्त सचिव (प्रशासन), के. प्र. कर बोर्ड

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 अप्रैल 2005

संकल्प

सं. ई. 11014/1/2003-रा. भा. (का.)--पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। पुनर्गठित समिति का गठन, कार्य आदि इस प्रकार होंगे:--

गठन

अध्यक्ष

1. पर्यावरण एवं वन मंत्री

उपाध्यक्ष

2. पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री

गैर सरकारी सदस्य

सदस्य

3. श्री वीरभद्र सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा)
4. श्री जयान्ता भट्टाचार्य, संसद सदस्य (राज्य सभा)
5. श्री अरविन्द कुमार शर्मा, संसद सदस्य (लोकसभा)
6. श्री कुंवर सर्वराज सिंह, संसद सदस्य (लोकसभा)
7. श्रीमती वंगा गीता, संसद सदस्य (राज्य सभा)
8. केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद का प्रतिनिधि
9. अध्यक्ष, राजभाषा हिंदी प्रचार समिति, वर्धा
10. डा. मनोहर प्रभाकर, सी-118, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर
11. डा. प्रमोद शर्मा, 16-विद्यानगर, महाराजा, प्रताप नगर, नागपुर
12. डा. उषा भार्गव, 1/23, मालवीय नगर, जयपुर
13. डा. रामगोपाल शर्मा दिनेश, सी-25, मानस अपार्टमेंट, भयूर विहार-I, दिल्ली
14. डा. (सुश्री) एन जी देवकी, इसवास्याम, पुलीमुकल रोड, जंगमपूझा नगर (पो.आ.), कोच्चि-682033, (केरल)
15. डा. नरेश मिश्र, 960, सेंक्टर-I, रोहतक (हरियाणा)-124001
16. श्री सतीश कुमार चौधरी, फ्लैट नं. 1 से 6, ग्राउंड फ्लौर, नार्थ विंग, मैरिड न्यू नर्सिस हॉस्टल, सफदरजंग हस्पताल, नई दिल्ली-29

सरकारी सदस्य

सदस्य

17. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
18. विशेष सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
19. वन महानिरीक्षक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
20. अपर सचिव (पर्यावरण), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
21. अपर सचिव (एन आर सी डी), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
22. संयुक्त सचिव (रा. भा. के प्रभारी), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
23. संयुक्त सचिव (वित्त), एवं वित्त सलाहकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय
24. सचिव, राजभाषा विभाग
25. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग
26. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली
27. निदेशक, राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, नई दिल्ली
28. निदेशक, राष्ट्रीय प्राणि उद्यान, नई दिल्ली
29. महानिदेशक, वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद्, देहरादून
30. निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून
31. निदेशक, वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून
32. निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून
33. निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकत्ता
34. निदेशक, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, कोलकत्ता
35. प्रबंध निदेशक, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, वन एवं बागान विकास निगम लि., पोर्ट ब्लेयर

36. निदेशक, भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बंगलौर

37. उप निदेशक, वन्य जीव क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई
38. उप निदेशक, वन्य जीव क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई
39. उप निदेशक, वन्य जीव क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता
40. मुख्य वन संरक्षक, केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
41. मुख्य वन संरक्षक, केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर
42. मुख्य वन संरक्षक, केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर
43. मुख्य वन संरक्षक, केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग
44. मुख्य वन संरक्षक, केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल
45. मुख्य वन संरक्षक, केन्द्रीय क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़
46. निदेशक, भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून
47. निदेशक, भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल
48. निदेशक, गोविन्द वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा

सदस्य-सचिव

49. निदेशक (रा. भा.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली कार्य

इस समिति का कार्य संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम व नियम के उपबंध, केन्द्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा जारी निदेशों, अनुदेशों के कार्यान्वयन और मंत्रालय के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

समिति का कार्यकाल

- (1) समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से सामान्यतः 3 वर्ष का होगा।
- (2) समिति के कार्यकाल के दौरान, यदि किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है तो वह समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।
- (3) विशेष परिस्थितियों में मंत्रालय द्वारा समिति का कार्यकाल कम या ज्यादा किया जा सकता है।
- (4) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
- (5) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने पर समिति के सदस्य होंगे।

यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20034/4/86-रा.भा.(क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा-भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य

मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 अप्रैल 2005

सं. I-25011/1997-पी.सी.—लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) के नियमों तथा विनियमों के नियम 55 द्वारा भारत सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने कपार्ट के समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद-2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है :—

“2 (i) सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में स्थित होगा और इस समय यह कार्यालय इंडिया हैबिटेड सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में स्थित है।

(ii) कपार्ट के ‘विजन’ में विभिन्न सरकारी एजेंसियों तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ सक्रिय तथा उत्प्रेरक भूमिका निभाना, लोक नीति को प्रभावित करना तथा ग्रामीण भारत के बहुमुखी विकास की दिशा में अपना योगदान देना है।

(iii) कपार्ट का ‘मिशन’ ग्रामीण गैर-सरकारी संगठनों के साथ घनिष्ठ समन्वय के साथ कार्य करना तथा उन्हें निम्नलिखित के माध्यम से अधिकार-सम्पन्न करना है :

- उन्हें बातचीत में शामिल करना,
- उनके विचारों तथा धारणाओं का सम्मान करना,
- उनकी बात सुनना,
- उनके संसाधनों को काम में लाना,
- उनके क्रिया-कलापों को वित्तपोषित करना,
- उन्हें मजबूत बनाना, विशेषकर महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों तथा विकलांगों और ग्रामीण समाज के अन्य शोषित वर्गों को,
- ग्रामीण समृद्धि के मार्ग पर उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलना”।

2. भारत सरकार ने कपार्ट के समझौता ज्ञापन के क्रम संख्या xviii में दिए गए खण्ड के पश्चात् अनुच्छेद-3 में क्रम संख्या xix में एक नया खण्ड जोड़ने का निर्णय लिया है, जो निम्नानुसार होगा :—

“(xix) ग्रामीण लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना तथा विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आई.पी.आर.) से संबंधित मामलों पर गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें क्रमवार मार्ग-रक्षी सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके ज्ञान की

आधार, चिर सम्मानित अंतर्निहित एवं पेटेंट अधिकारों तथा उनसे जुड़े हुए सभी मामलों की संरक्षा करते हुए उनकी मदद करना।”

कृ.पा. सरोहा, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2005

सं. एफ. 9-3/2002-यू.-3.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 की 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर सविता आयुर्विज्ञान एवं तकनीकी विज्ञान संस्थान, चेन्नई में शामिल उक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ निम्नलिखित तीन संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से सम-विश्वविद्यालय घोषित करती है : बशर्ते कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य सम्बद्ध सांविधिक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी सम-विश्वविद्यालयों पर लागू होने वाले दिशा-निर्देशों/निर्देशों का अनुपालन करेंगे :—

(i) सविता डेन्टल कालेज एण्ड अस्पताल, चेन्नई, तमिलनाडु

(ii) सविता कालेज आफ नर्सिंग, चेन्नई, तमिलनाडु

(iii) सविता कालेज आफ फिजीयोथेरेपी, चेन्नई, तमिलनाडु

सुनिल कुमार, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2005

संकल्प

सं. एफ 3-6/2004 प्रशासन—दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के 1964 के अधिनियम XIV के अनुच्छेद 7(1) के अनुक्रम में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के कार्य की समीक्षा एवं मूल्यांकन तथा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा (डी.बी.एन.पी. एस) के तथाकथित दुष्कार्यों की जाँच करने तथा उसकी रिपोर्ट तैयार करने हेतु श्री पी.आर. दास गुप्ता, सेवा निवृत्त आई.ए.एस., (पूर्व संघ शिक्षा सचिव) की एक सदस्यीय समिति की नियुक्ति करती है।

2. श्री पी. आर. दास गुप्ता 6 माह की अवधि में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत करेंगे। समीक्षा की शर्तें निम्न प्रकार होंगी :—

(i) सभा के नियम एवं शर्तों में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुसार दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों की समीक्षा करना।

(ii) सभा के वित्तीय लेन-देन की जाँच करना तथा यदि कोई अनियमितता है तो उसे इंगित करना।

(iii) सभा के मतदाताओं की सूची का परीक्षण करना और फर्जी नामों को यदि कोई हो तो उजागर करना तथा सभा के चुनाव निर्बाध एवं निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं या नहीं इसकी जाँच करना।

- (iv) भारत सरकार द्वारा सभा को हिंदी भाषा के संवर्धन करने के लिए दिए जा रहे अनुदान के उपयोग की जाँच करना।
- (v) जरूरत पड़ने पर, समीक्षाधीन किसी भी मामले पर प्रतिष्ठित हस्तियों/शिक्षाविदों से परामर्श लेना।
- (vi) सभा की गतिविधियों में सुधार के लिए आवश्यक उपाय सुझाना एवं उनकी संस्तुति करना।

3. समिति को सार्वजनिक सहायता केंद्रीय हिंदी निदेशालय, आर.के. पुरम, नई दिल्ली के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।

4. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा द्वारा मांगे गए सभी रिकार्डों, प्रलेखों फाइलों आदि को उपलब्ध करवाएगी तथा समिति के साथ पूर्ण सहयोग करेगी।

5. निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय तथा उनके क्षेत्रीय कार्यालयों एवं मुख्यालयों के सभी अधिकारी समिति को सभी आवश्यक रिकार्ड, प्रलेख व सूचना देंगे तथा समीक्षा के दौरान एवं रिपोर्ट तैयार करने के दौरान समिति को पूर्ण सहयोग देंगे।

6. श्री पी. आर. दास गुप्ता, भूतपूर्व सचिव (शिक्षा), भारत सरकार, जो सभा के कार्यों की समीक्षा करेंगे, भारत सरकार के सचिव को मिलने वाली सभी सुविधाओं एवं अनुलाभों के हकदार होंगे। उन्हें तथा उनके सचिव स्टाफ का मिलने वाले सामान्य यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का भुगतान केंद्रीय हिंदी निदेशालय/मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता कि संकल्प की एक प्रति दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के निदेशक को अनुपालन के लिए भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित करवाया जाए।

बेला बैनर्जी, संयुक्त सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 2005

संकल्प

सं. 11011/2/2004-हिंदी--विद्युत मंत्रालय के तारीख 21 दिसंबर, 1998, 19 जून, 2000, 13 फरवरी, 2001 और 22 मार्च, 2002 के संकल्प संख्या 11011/2/96-हिंदी का अधिक्रमण करते हुए भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का निम्न प्रकार से पुनर्गठन करने का निर्णय किया है:--

अध्यक्ष

विद्युत मंत्री

गैर सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित

सदस्य

1. श्री रवीन्द्र राणा, संसद सदस्य (लोक सभा)
2. श्री मोहन जेना, संसद सदस्य (लोक सभा)
3. श्री अबनी राय, संसद सदस्य (राज्य सभा)
4. श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा)

संसदीय राजभाषा समिति से नामित

सदस्य

5. डा. छत्रपाल सिंह लोधा, संसद सदस्य (राज्य सभा)
6. प्रो. रामदेव भंडारी, संसद सदस्य (राज्य सभा)

अखिल भारतीय हिंदी संस्थाओं एवं केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् के प्रतिनिधि

सदस्य

7. श्री जी. बी. कुलकर्णी, प्रतिनिधि, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, नई दिल्ली
8. डा. परमानंद पांचाल, प्रतिनिधि, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद्, नई दिल्ली

मंत्रालय द्वारा नामित

सदस्य

9. पं. कृष्ण दत्त शास्त्री
10. श्री सैयद हमिद अली
11. श्री हरिहर लाल श्रीवास्तव
12. श्री रवीन्द्र गुप्ता

राजभाषा विभाग द्वारा नामित

सदस्य

13. श्री स्वदेश भारती
14. डा. एन. चन्द्रशेखरन नायर
15. श्री चन्द्रधर त्रिपाठी

सरकारी सदस्य

सदस्य

16. सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय
17. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
18. विशेष सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय
19. अपर सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय

सदस्य-सचिव

20. अपर सचिव (विद्युत/आर एंड आर), विद्युत मंत्रालय

सदस्य

21. संयुक्त सचिव (प्रशा.), विद्युत मंत्रालय
22. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली
23. अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली

सदस्य

24. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि., नई दिल्ली
25. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. गुड़गांव
26. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पावर फाइनैस कारपोरेशन लि., नई दिल्ली
27. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि., नई दिल्ली
28. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रीक पावर कारपोरेशन लि., फरीदाबाद
29. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सतलुज जल विद्युत निगम लि., शिमला
30. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि., ऋषिकेश
31. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि., शिलांग
32. अध्यक्ष, भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड, चंडीगढ़
33. अध्यक्ष, दामोदर घाटी निगम लि., कोलकाता
34. महानिदेशक, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलूर
35. महानिदेशक, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, फरीदाबाद
36. महानिदेशक, ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो, नई दिल्ली
37. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पी.टी.सी. इंडिया लि., नई दिल्ली

2. कार्य

यह समिति सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग से संबंधित मामलों तथा सहायक और प्रासंगिक मामलों पर विद्युत मंत्रालय और इसके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी निकायों/संस्थानों/सोसाइटियों/बोर्डों आदि को सलाह देगी।

3. कार्यकाल

समिति का कार्यकाल निम्नलिखित व्यवस्था के अधीन, सामान्यतया उसके गठन की तारीख से तीन वर्षों का होगा :-

- (क) समिति में नामजद संसद सदस्य, उनकी संसद की सदस्यता समाप्त होते ही इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक ही इस समिति के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे उस पद पर रहें, जिसके कारण वे समिति के सदस्य बने हैं।
- (ग) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए अथवा त्याग-पत्र दे देने के परिणामस्वरूप समिति में कोई रिक्ति हो जाती है तो उनके स्थान पर नियुक्त सदस्य शेष कार्यकाल तक पद धारण करेंगे।

4. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। दिल्ली के बाहर भी समिति की बैठक आयोजित की जा सकती है।

5. यात्रा तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20034/4/86-रा.भा.(क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित और निर्धारित नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जनसमाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अजय शंकर, अपर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 3rd May 2005

No. 16-Pres/2005—The President is pleased to institute a medal for recognition of the services of Armed Forces Personnel in the OP PARAKRAM in 2001, and in this behalf, to make, and establish the following ordinance:—

Firstly—The Medal shall be styled and designated the "OP PARAKRAM MEDAL" (hereinafter referred to as the medal).

Secondly—The Medal shall be circular in shape, made of cupro-nickel, 35 mm in diameter and fitted to a plain horizontal bar with standard fittings. It shall have Map of India and inscription "ऑपरेशन पराक्रम" "OPERATION PARAKRAM" embossed both in Hindi and English along the rim. On its reverse it shall have State Emblem embossed in a circle. A sealed pattern of the Medal shall be deposited and kept.

Thirdly—The medal shall be worn suspended from the left breast by a silk ribbon 32 mm in width having three equal parts of Blue, Olive Green and Sand colour, starting left to right. Blue and Olive Green parts shall be separated by a white stripe 2 mm in width. Olive Green and Sand colour parts shall be separated by a red stripe of 2 mm in width.

Fourthly—The medal shall be awarded to the personnel of the following forces:—

(a) To all categories of personnel who were borne on the effective strength of the Army, Navy and Air Force and were mobilized/deployed/involved in planning and conduct of operations at various Headquarters in support of OP PARAKRAM.

(b) All ranks of the Para Military Forces, Central Police Forces, Railway Protection Force, Civil Defence personnel, State Police personnel, Home Guards, civilian personnel and personnel of the other organization as specified by the Government who were deployed in operational areas under Army's operational control or any other personnel of such organization deployed in areas as may be specified by the Government, who assisted in implementing, coordination and conduct etc. of operation.

(c) All personnel on the effective strength of the Coast Guard who were operationally deployed at sea or were part of the operational planning at various Headquarters.

(d) Civilians of either sex serving regularly or temporarily under the orders/directions or supervision of the above mentioned forces in operational areas.

(e) Civilians deployed for Local Defence, War Watching Organizations, Naval Control of Shipping and Examination Services.

Fifthly—The qualifying areas for the purpose of this medal shall be as given below:—

(a) Army—All formations, units/regiments and sub units which were mobilized and deployed in support of OP PARAKRAM, and also all ranks posted at various Headquarters including Army Headquarters involved in planning and conduct of mobilization/deployment.

(b) Navy—

(i) All personnel from ships, submarines, aircraft, coast batteries and coastal defence forces, War Watching, Naval Control of Shipping, Examination Services, including Coast Guard units that were deployed at sea in the Indian Ocean, Arabian Sea and the Bay of Bengal including the Andaman Sea and involved with operational activities of OP PARAKRAM.

(ii) This includes all personnel ashore at Naval Headquarters, Command Headquarters, Flag Officer Maharashtra Area and Flag Officer Goa Area Headquarters, Naval Officer-in-Charge staff that were actually involved with operational, logistics and administrative planning of OP PARAKRAM.

(c) Air Force—All Wings/Forward Base Supply Units/Stations, Squadrons and sub units which were mobilized and deployed in support of OP PARAKRAM in Western Air Command, South Western Air Command and Central Air Command and elements of Maintenance Command deployed/mobilized in support of the Western Air Command, South Western Air Command and Central Air Command as also all ranks posted to various Headquarters including Air Headquarters involved in planning and conduct of mobilization/deployment.

Sixthly—Conditions of Eligibility

(a) A person who has completed aggregate service of 180 days in qualifying area. The qualifying period for the Medal will not count towards any other Medal instituted for that area for same spell of service.

(b) Personnel of Army Aviation Corps, Navy Air Squadrons, air crew of Air Force, ejection crew of Air Despatch units and personnel borne on the effective strength of Air Maintenance Battalions/Coast Guard Air Squadrons who have carried out a minimum of five operational sorties or twenty hours of operational flying in/over the qualifying area.

(c) All recipient of gallantry series of awards during OP PARAKRAM irrespective of the time limit or a person who died in service or was evacuated as a result of wounds or other disabilities attributable to service in the qualifying area irrespective of the time limit or number of operational sorties or number of operational flying hours shall be eligible for this Medal.

(d) All Naval/Coast Guard personnel on board Naval, Coast Guard, merchant ships and crafts under the operational control of the Indian Navy who have completed an aggregate service of 180 days in the qualifying area or

have undertaken an aggregate of five armed patrol sorties in the qualifying area.

Seventhly—It shall be competent for the President to cancel and annul the award of the medal to any person, and also to restore it subsequently.

Eighthly—It shall be competent for the Government to frame such instructions as may be necessary to carry out these ordinances.

BARUN MITRA
Director

LOK SABHA SECRETARIAT

(ESTIMATES COMMITTEE BRANCH)

New Delhi-110001, the 2nd May 2005

Members of the Committee on Estimates (2005-2006)

No. 4/2/EC/2005—The following Members of Lok Sabha have been declared as duly elected to serve on the Committee on Estimates for the term ending on 30th April 2006:—

1. Shri Sartaj Singh Chhatwal
2. Shri Lal Muni Choubey
3. Shri Adhir Chowdhury
4. Shri V. Kishore Chandra S. Deo
5. Shri Anant Gangaram Geete
6. Shri Anant Gudhe
7. Shri Jai Prakash
8. Shri P. Karunakaran
9. Shri Vijoy Krishna
10. Shri B. Vinod Kumar
11. Prof. Chander Kumar
12. Shri C. Kuppusami
13. Shri Samik Lahiri
14. Shri Bhartruhari Mahatab
15. Shri Sanat Kumar Mandal
16. Shri Zora Singh Mann
17. Shri Prabodh Panda
18. Shri Sukhdeo Paswan
19. Shri Annasahib M. K. Patil
20. Shri A. Sai Prathap
21. Prof. M. Ramadass
22. Shri K. S. Rao
23. Shri Iqbal Ahmed Saradgi
24. Shri Jyotiraditya M. Scindia

25. Shri Arjun Charan Sethi
26. Shri Menabendra Shah
27. Shri Lakshman Singh
28. Shri Kharabela Swain
29. Shri Akhilesh Yadav
30. Shri Chandra Pal Singh Yadav

The Speaker has appointed Shri C. Kuppusami, M. P. as the Chairman of the Committee on Estimates (2005-2006).

B. D. SWAN
Dy. Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 11th April 2005

RESOLUTION

No. E-11011/5/2004-Hindi-4—In supersession of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Resolution No. E-11011/4/1996-Hindi-4 dated 21st May, 1999, as amended from time to time, the Government of India in the Ministry of Finance, have reconstituted the Hindi Salahakar Samiti of the Department of Revenue and Expenditure as follows:

Official Members

Chairman

1. Finance Minister

Vice-Chairman

2. Minister of State in the Ministry of Finance

Members

3. Revenue Secretary, Ministry of Finance, Govt. of India
4. Secretary (Expenditure), Ministry of Finance, Government of India
5. Hindi Adviser to the GOI & Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs
6. Additional Secretary (Revenue), Deptt. of Revenue, Ministry of Finance
7. Additional Secretary (Expenditure), Department of Expenditure, Ministry of Finance
8. Chairman, C. B. D. T., Ministry of Finance, Deptt. of Revenue
9. Chairman, C. B. E. C., Ministry of Finance, Deptt. of Revenue
10. Chairman, C. E. S. T. A. T., R. K. Puram, New Delhi
11. Chairman, Forefeited Properties Appellate Tribunal, Loknaya Bhawan, Khan Market, New Delhi
12. Chairman, Income Tax Settlement Commission, Loknaya Bhawan, Khan Market, New Delhi

13. D. G. Central Economic Intelligence Bureau, Indian Oil Bldg., Janpath, New Delhi
14. Director, Enforcement Directorate, Loknayak Bhawan, Khan Market, New Delhi
15. Financial Advisor, Ministry of Finance
16. Joint Secretary, Department of Official Language, Loknayak Bhawan, Khan Market, New Delhi.
17. Deputy Controller & Auditor General (Commerce) of India, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi
- Member Secy.
18. Joint Secretary (CBDT), Department of Revenue

Non-Official Members

Members

19. Dr. Karan Singh Yadav, M. P., Lok Sabha
20. Sh. G. M. Siddheshwar, M. P., Lok Sabha
21. Sh. Mool Chand Meena, M. P., Rajya Sabha
22. Sh. Jayanti Lal Barot, M. P., Rajya Sabha
23. Dr. Satyanarayan Jatia, M. P., Lok Sabha
24. Sh. Mahender Prasad Nishad, M. P., Lok Sabha
25. Dr. Padmakar Pandey, Pradhanmantri, Nagri Pracharini Sabha, A-16, Asaf Ali Road, New Delhi-110067
26. Sh. Krishan Kumar Grover, Representative, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, FB-16, Tagore Garden, New Delhi-110027
27. Dr. K. M. Malthy (Retired Head of Govt. Arts and Science College), 8, Sai Nagar, Vardha, Maharashtra
28. Dr. Balashouri Reddy, Chairman, Tamilnadu Hindi Academy 27, Vadivelupuram, West Mambalam, Chennai
29. Professor Suraj Bhan Singh (Ex. Chairman, Commission for Scientific & Technical Terminology) I-127, Naraina Vihar, New Delhi
30. Sh. Jagdish Piyush, Gauriganj, Sultan Pur
31. Sh. V. Tulsiram, 7-4-12, Gaganpahad Village, Ranga Reddy Distt. Hyderabad (A.P.)
32. Sh. T. S. K. Kannan, 8, Rathna Nagar, Tegnampet, Chennai
33. Sow, Chitra Lekha Hanumant Rao Mane-Kadam, Head of Panch Krosi Sikshan Mandel, Rahimpoor, Tal Koregaon Distt. Satara (Maharashtra)

(2) Functions of the Committee

The Samiti shall advise the Ministry of Finance (Deptt. of Revenue & Expenditure) on matters relating to progressive use of Hindi for Official Purposes.

(3) Tenure

The term of Committee will be three years from the date of its formation. Members of Parliament who are members

of this Committee shall cease to be its member if the Parliament is dissolved or the tenure of a particular member (in Rajya Sabha) ends or otherwise if he does not remain Member of Parliament due to one reason or the other. A person nominated for the vacant post during the tenure of Committee will be member only for the remaining tenure.

(4) Headquarter

The Headquarter of the Committee shall be at New Delhi, but it may hold its meetings at any other station.

(5) Allowances

The non-official members will be paid Travelling & Daily allowances for attending the meetings of the Committee at the rate fixed by the Govt. of India from time to time, as admissible to members of High Powered Committee.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the Members of this Committee, President Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Director of Audit Central Revenue and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

PRADEEP SEN
Jt. Secy. (Admn.) C.B.D.T.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 20th April 2005

RESOLUTION

No. E.11014/1/03-OL(I).—The Government of India have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Environment and Forests. The Composition of the Samiti and its functions will be as under:—

COMPOSITION

Chairman

1. Minister for Environment & Forests

Dy. Chiarmen

2. State Minister for Environment & Forests

Non-Official Members

Members

3. Sh. Vir Bhadra Singh, M. P., Rajya Sabha
4. Sh. Jyanta Bhattacharya, M. P., Rajya Sabha
5. Sh. Arvind Kumar Sharma, M. P., Lok Sabha
6. Sh. Kunwar Swaraj Singh, M. P., Lok Sabha
7. Smt. Vanga Geeta M. P., Rajya Sabha
8. Nominee of The Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

9. Chairman, Rajbhasha Prachar Samiti, Wardha
10. Dr. Manohar Prabhakar, C-118, Mangal Marg, Bapu Nagar, Jaipur
11. Dr. Pramod Sharma, 16, Vidya Nagar, Maharaja Pratap Nagar, Nagpur
12. Dr. Usha Bhargav, 1/23, Malviya Nagar, Jaipur
13. Dr. Ram Gopal Sharma Dinesh, C-25, Manash Appartt., Mayur Vihar, Delhi
14. Dr. (Ms) N. G. Devaki, Isavasyam, Pulimukal Road, Changampuzha Nagar (P. O.), Kochi-6820033, Kerala
15. Dr. Naresh Mishra, 960, Sector-1, Rohtak, Hariyana-124001
16. Sh. Satish Kumar Choudhary, Flat No. 1 to 6, Ground Floor, North Wing, Married New Nurses Hostel, Safdarjung Hospital, New Delhi-29

Official Members

17. Secretary, Ministry of Environment & Forests
18. Special Secretary, Ministry of Environment & Forests
19. Inspector General of Forests & Special Secretary, Ministry of Environment & Forests
20. Additional Secretary (Env.), Ministry of Environment & Forests
21. Additional Secretary, (National River Conservation Directorate)
22. Joint Secretary, (In charge of OL in the Ministry), Ministry of Environment & Forests
23. Joint Secretary (Finance) & F. A., Ministry of Environment & Forests
24. Secretary, (Department of Official Language)
25. Joint Secretary, (Department of Official Language)
26. Chairman, Central Pollution Control Board, New Delhi.
27. Director, National Museum of Natural History, New Delhi.
28. Director, National Zoological Park, New Delhi.
29. Director General, Indian Council of Forestry Research & Education, Dehradun.
30. Director, Forest Survey of India, Dehradun.
31. Director, Directorate of Forest Education, Dehradun.
32. Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun.
33. Director, Botanical Survey of India, Kolkatta.
34. Director, Zoological Survey of India, Kolkatta.
35. Managing Director, Andaman & Nicobar Islands Forests & Plantation, Development Corporation Ltd. Port Blair.
36. Director, Indian Plywood Industries Research & Training Institute, Bangalore.
37. Dy. Director, Wild Life Regional Office, Mumbai
38. Dy. Director, Wild Life Regional Office, Chennai
39. Dy. Director, Wild Life Regional Office, Kolkatta
40. Chief Conservator of Forests, Central Regional Office, Lucknow
41. Chief Conservator of Forests, Central Regional Office, Bangalore
42. Chief Conservator of Forests, Central Regional Office, Bhubneshwar
43. Chief Conservator of Forests, Central Regional Office, Shillong
44. Chief Conservator of Forests, Central Regional Office, Bhopal
45. Chief Conservator of Forests, Central Regional Office, Chandigarh
46. Director, Wild Life Institute of India, Dehradun
47. Director, Indian Institute of Forests, Bhopal
48. Director, G. B. Pant Instt. of Himalayan Environment & Development, Almora

Member Secretary

49. Director (OL), Ministry of Environment & Forests

Functions of the Samiti

The function of the Samiti will be to render advice in regard to the implementation of the provisions relating to Official Language contained in the constitution. Official Language Act and rules and policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) relating to official language and also to advise this Ministry on the progressive use of Hindi.

Tenure

- (1) The term of the members of the Samiti will be three years from the date of its composition.
- (2) If during the tenure of the Samiti, any member is nominated, his tenure will be the remaining tenure of the Committee.
- (3) In special circumstances, the tenure of the Samiti can be curtailed or extended.
- (4) Members of Parliament who are members of this Samiti will cease to be the members as soon as they cease to be Members of Parliament.
- (5) Ex-officio members of the Samiti shall continue as members only so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti.

Travelling and other Allowances

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti as per the directions given in the Department of Official Language O. M. No. II/20034/4/86-OL(A-II) dated 22nd January, 1987 and as per the rules and rates fixed by the Govt. of India duly amended from time to time.

ORDER

It is ordered that a copy of this resolution may be forwarded to all State Governments and Union Territories Administrations, all Ministries and Departments of the Govt. of India, President Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Sectt., Lok Sabha/Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, Committee of Parliament on Official Language, Comptroller and Auditor General of India, Pay and Accounts Officer, Cabinet Sectt., New Delhi.

It is also ordered that this resolution may be published in the Gazette of India for information to the public.

DESH DEEPAK VERMA
Jt. Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 13th April 2005

No. I-25011/1997-PC.—In exercise of the powers conferred on it by Rule 55 of the Rules and Regulations of the Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART), the Government of India has decided that Article 2 of the Memorandum of Association of CAPART shall be substituted by the following:—

"2 (i) The registered office of the society shall be situated in Union Territory of Delhi and at present is situated at India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110003.

(ii) The Vision of CAPART is to play a dynamic and catalytic role with the various Governmental agencies and NGOs, influence public policy and contribute its share towards the many-sided development of Rural India.

(iii) The Mission of CAPART is to work in close coordination with rural NGOs and empower them by

- Engaging them in dialogue,
- Respecting their thoughts and ideas,
- Listening to their voice,
- Harnessing their resources,
- Funding their activities,
- Strengthening their hands, particularly the women, the weaker sections of society and the disabled and other underprivileged sections of rural society.

- Walking hand-in-hand with them on the road to rural prosperity".

2. It has also been decided by the Government of India to add a new clause at Serial No. xix) in the Article 3 after the clause at Serial No. xviii) of the Memorandum of Association of CAPART, which will be as follows:—

"xix) To create awareness amongst rural people and provide a series of escort services to them through the NGOs on matters relating to Intellectual Property Right (IRR) issues in the context of WTO and assist them by protecting their knowledge-base, time-honoured inherent and patent rights and all matters connected therewith."

K. P. SAROHA
Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER
EDUCATION)

New Delhi, the 18th March 2005

// No. F.9-3/2002-U.3—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declares the Saveetha Institute of Medical and Technical Sciences, Chennai ~~comprising of~~ following three institutions as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with ~~immediate effect~~ subject to the condition that the institute will ~~adhere to~~ the guidelines/instructions issued by UGC and other concerned statutory bodies from time to time as applicable to the Deemed Universities:—

- (i) Saveetha Dental College and Hospital, Chennai, Tamilnadu
- (ii) Saveetha College of Nursing, Chennai, Tamilnadu
- (iii) Saveetha College of Physiotherapy, Chennai, Tamilnadu

SUNIL KUMAR
Jt. Secy.

New Delhi, the 31st March 2005

RESOLUTION

No. F. 3-6/2004-Admn.—In pursuance of Section 7(1) of the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha Act XIV of 1964, the Ministry of Human Resource Development, Government of India Hereby appoints one man committee of Shri P. R. Dasgupta, retired IAS (former Union Education Secretary) to review and to evaluate the work of Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha and to hold enquiry into the alleged malfunctioning of Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha (DBHPS), and report thereon.

2. Shri P. R. Dasgupta will submit his report to the Government of India within a period of six months. The terms of reference of the Review will be as under:—

- (i) To review the administrative and financial functioning of the DBHPS in relation to aims and objectives as laid down in terms & conditions of the Sabha.
- (ii) To probe into the financial transactions of the Sabha and to point out irregularities, if any.
- (iii) To examine the voters list of the Sabha and point out the bogus names, if any, and whether the election to Sabha are held properly in free and fair manner.
- (iv) To probe into the utilization of the grant released by the Government of India for promotion of Hindi language by the Sabha.
- (v) Consult eminent personalities/academicians on any matter under review, if need be; and
- (vi) Make recommendations and suggest remedial measures as are necessary to improve the functioning of the Sabha.

3. The Secretarial assistance to the committee shall be arranged by the Ministry of Human Resource Development through Central Hindi Directorate, R. K. Puram, New Delhi.

4. DBHPS shall make available all records, documents, files etc. to the committee as called for by the committee and fully co-operate with the committee.

5. Director, CHD and all her officials at regional offices and headquarters shall provide all necessary records, documents, information to the committee and fully co-operate with it during the process of review and preparation of the report.

6. Shri P. R. Dasgupta, former Secretary (Education), Government of India, who shall undertake the review will be entitled to the same perquisites and facilities as are admissible to the Secretary to the Government of India. Normal TA/DA, as per rules, shall be paid to him and his secretariat staff by the CHD/Ministry of Human Resource Development.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Director of DBHPS for compliance.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

BELA BANERJEE
Jt. Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 21st April 2005

Resolution

No. 11011/2/2004-Hindi.—In supersession of the

Ministry of Power resolution No. 11011/2/96-Hindi dated 21st December, 1998, 19th June, 2000, 13th February, 2001 and 22nd March, 2002, the Government of India have decided to re-constitute Hindi Sahakar Samiti of the Ministry of Power as under:—

Chairman

Minister of Power

Non-Official Member

Nominated by Ministry of Parliamentary Affairs

Members

1. Shri Ravindra Rana, M. P., Lok Sabha
2. Shri Mohan Jena, M. P., Lok Sabha
3. Shri Abani Roy, M. P., Rajya Sabha
4. Shri Vashisht Narayan Singh, M. P., Rajya Sabha

Nominated from Parliamentary Committee on Official Language

Members

5. Dr. Chhatrapal Singh Lodha, M. P., Rajya Sabha
6. Prof. Ramdeo Bhandari, M.P., Rajya Sabha

Representatives of All India Hindi Institutes and Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

Members

7. Shri G. B. Kulkarni, Representative, Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh, New Delhi
8. Dr. Parmanand Panchal, Representative, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, New Delhi

Nominated by the Ministry

Members

9. Pt. Krishan Dutt Shastri
10. Shri Syed Hamid Ali
11. Shri Harihar Lal Srivastava
12. Shri Ravindra Gupta

Nominated by the Official Language Department

Members

13. Shri Swadesh Bharti
14. Dr. N. Chandrashekhra Nair
15. Shri Chandradhar Tripathi

Official Members

Members

16. Secretary (Power), Ministry of Power
17. Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, New Delhi

Members

18. Special Secretary (Power), Ministry of Power
19. Additional Secretary (Power), Ministry of Power

Member-Secretary

20. Additional Secretary (Power/R&R), Ministry of Power

Members

21. Joint Secretary (Admn.), Ministry of Power
22. Joint Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, New Delhi
23. Chairman, Central Electricity Authority, New Delhi
24. Chairman & Managing Director, National Thermal Power Corporation Ltd., New Delhi
25. Chairman & Managing Director, Powergrid Corporation of India Ltd., Gurgaon
26. Chairman & Managing Director, Power Finance Corporation Ltd., New Delhi
27. Chairman & Managing Director, Rural Electrification Corporation Ltd., New Delhi
28. Chairman & Managing Director, National Hydroelectric Power Corporation Ltd., Faridabad
29. Chairman & Managing Director, Satluj Jal Vidyut Nigam Ltd., Shimla
30. Chairman & Managing Director, Tehri Hydro Development Corporation Ltd., Rishikesh
31. Chairman & Managing Director, North Eastern Electric Power Corporation Ltd., Shillong
32. Chairman, Bhakhra Beas Management Board, Chandigarh
33. Chairman, Damodar Valley Corporation Ltd., Kolkata
34. Director General, Central Power Research Institute, Bangalore
35. Director General, National Power Training Institute, Faridabad
36. Director General, Bureau of Energy Efficiency, New Delhi
37. Chairman & Managing Director, PTC India Ltd., New Delhi

2. Functions

The Samiti will advise the Ministry of Power and its attached & Subordinate Offices/Public Sector Undertakings/Corporations/Autonomous bodies/Institutions/Societies/Boards etc. under the administrative control of the Ministry on the matters relating to progressive use of Hindi for Official purpose and allied issues.

3. Tenure

The term of the Samiti will be generally three years from the date of its constitution provided that:—

- (a) The Member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be a Member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.
- (b) Ex-Officio members of the Samiti shall continue as members as long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti.
- (c) If a vacancy arises in the Samiti due to death or resignation of member, the member appointed in that capacity shall hold office for the residual term.

4. General

The Headquarter of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meeting at any other station also.

5. Travelling and Other Allowances

The Non-Official Members will be paid travelling and daily allowances for attending the meeting of the Samiti as per the guidelines of Official Language Department contained in the office Memorandum No. II/20034/86/OL (A-2) dated 22nd January, 1987 and the rates and rules as amended and prescribed by the Government of India from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries/Departments of Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

AJAY SHANKAR
Addl. Secy.